

## सत्रीय कार्य पुस्तिका

### स्नातक उपाधि कार्यक्रम (बी.एससी.)

#### संचार भौतिकी

1 जनवरी, 2021 से 31 दिसंबर, 2021 तक वैध

सत्रांत परीक्षा फॉर्म भरने से पहले सत्रीय कार्य जमा करना अनिवार्य है।

#### कृपया ध्यान दें

- बी.एससी. कार्यक्रम में ऐच्छिक पाठ्यक्रम चार विषयों – रसायन विज्ञान, भौतिकी, गणित और जीव विज्ञान – में उपलब्ध हैं। ऐच्छिक पाठ्यक्रमों के कुल क्रेडिट (56 से 64), कम से कम दो और अधिकतम चार विषयों में से हो सकते हैं।
- आपके द्वारा चुने गए किसी भी विषय में आपको कम से कम 8 क्रेडिट के ऐच्छिक पाठ्यक्रम लेने होंगे। किसी भी विषय में आप अधिक से अधिक 48 क्रेडिट के ऐच्छिक पाठ्यक्रम ले सकते हैं।
- आप भौतिकी, रसायन तथा जीव विज्ञान के ऐच्छिक पाठ्यक्रमों के जितने कुल क्रेडिट लेते हैं, उनमें से कम से कम 25 प्रतिशत प्रयोगशाला पाठ्यक्रमों के होने चाहिए। उदाहरण के लिए, यदि आप इन तीन विषयों में कुल 64 क्रेडिट के पाठ्यक्रम लेते हैं, तो इनमें से कम से कम 16 क्रेडिट प्रयोगशाला पाठ्यक्रमों के होने चाहिए।
- किसी पाठ्यक्रम में पंजीकरण कराए बिना आप उसकी सत्रांत परीक्षा में नहीं बैठ सकते। अगर आप ऐसा करते हैं तो उस पाठ्यक्रम का परीक्षाफल रोक दिया जाएगा और इसका दायित्व आप पर होगा।



विज्ञान विद्यापीठ  
इन्द्रिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय  
मैदान गढ़ी, नई दिल्ली – 110 068

प्रिय विद्यार्थी,

हम उम्मीद करते हैं कि स्नातक उपाधि कार्यक्रम में अपनाई गयी मूल्यांकन पद्धति से आप भली-भांति परिचित हैं। आपके नामांकन के बाद हमने आपको एक कार्यक्रम दर्शिका भेजी थी। उसमें सत्रीय कार्य से संबंधित जो भाग है, उसे कृपया दुबारा पढ़ लें। जैसा कि आप जानते हैं निरन्तर मूल्यांकन के लिए 30% अंक निर्धारित किए गए हैं। इसके लिए आपको इस 4 क्रॉडिट पाठ्यक्रम में एक अध्यापक जांच सत्रीय कार्य (TMA) करना होगा। अपना सत्रीय कार्य अपने अध्ययन केंद्र पर जमा करें।

### सत्रीय कार्य से संबंधित निर्देश

इससे पहले कि आप किसी प्रश्न का उत्तर लिखें, निम्नलिखित निर्देशों को ध्यान से पढ़ें।

- 1) अपनी TMA उत्तर पुस्तिका के पहले पृष्ठ पर सबसे ऊपर निम्नलिखित प्रारूप के आधार पर विवरण लिखें।

नामांकन संख्या : .....

नाम : .....

पता : .....

.....

.....

पाठ्यक्रम कोड : .....

पाठ्यक्रम शीर्षक : .....

सत्रीय कार्य कोड : .....

अध्ययन केंद्र : .....

दिनांक : .....

कार्य के सही और शीघ्र मूल्यांकन के लिए दिये गए प्रारूप का सही अनुसरण करें।

- 2) अपना उत्तर लिखने के लिए फुलस्कैप कागज का इस्तेमाल करें, जो बहुत पतला न हो।
- 3) प्रत्येक कागज पर बायें, ऊपर और नीचे 4 cm जगह छोड़ें।
- 4) आपके उत्तर सुस्पष्ट और अपने शब्दों में होने चाहिए।
- 5) प्रश्नों के हल लिखते समय, स्पष्ट लिखें कि आप किस प्रश्न का कौन-सा भाग हल कर रहें हैं। ध्यान रखें कि उत्तर संक्षिप्त और सटीक हों। परिकलन के प्रत्येक चरण पर भौतिक राशियों की इकाइयां अवश्य लिखें। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो अंक काट लिए जाएंगे। अपने काम में सार्थक अंकों का ध्यान रखें। कार्य देने से पहले उसकी अच्छी तरह जांच कर लें।
- 6) यह सत्रीय कार्य 01 जनवरी 2021 से 31 दिसम्बर 2021 तक, एक साल के लिए वैध है। लेकिन हमारी सलाह है कि आप सत्रीय कार्य इस पुस्तिका के मिलने के 12 सप्ताहों के भीतर जमा कर दें ताकि यह आपके अध्ययन में सहायक सिद्ध हो सके।

हमारा सुझाव है कि आप अपने सत्रीय कार्य की एक प्रति अपने पास सुरक्षित रखें; और यदि संभव हो तो इस पुस्तिका की एक प्रति अपनी उत्तर पुस्तिका के साथ संलग्न करें।

आपको PHE-16 पाठ्यक्रम के अध्ययन के दौरान अगर कोई कठिनाई आए तो आप sgokhale@ignou.ac.in पर ई-मेल भेजकर इसका समाधान पा सकते हैं। कृपया ध्यान रहे कि हम इस सत्रीय कार्य पुस्तिका में शामिल प्रश्नों के हल नहीं देते।

हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं।

**अध्यापक जांच सत्रीय कार्य  
संचार भौतिकी**

पाठ्यक्रम कोड : PHE-16

सत्रीय कार्य कोड : PHE-16/ TMA/ 2021

अधिकतम अंक : 100

**नोट :** सभी प्रश्न हल करें। प्रतीकों के अपने सामान्य अर्थ हैं। प्रत्येक प्रश्न के अंक उसके सामने दर्शाए गए हैं।

---

**1. कारण सहित बताएं कि निम्नलिखित कथन सत्य हैं अथवा असत्य।** (2×10)

- i) स्पंद का उत्थान काल इसके आयाम को शिखर आयाम मान के 0% से 100% तक पहुचने में लगने वाला समय होता है।
  - ii) सभी प्रकार के युक्ति रव श्वेत रव होते हैं।
  - iii) सुमेलित संचरण लाइन के अप्रगामी तरंग अनुपात (SWR) का मान अनंत होता है।
  - iv) आवृत्ति मॉड्युलन सूचकांक ( $m_f$ ) का मान वाहक आवृत्ति पर निर्भर नहीं करता है।
  - v) आवृत्ति विस्थापन कुंजीयन में अंकीय वाहक का अनुरूप सिग्नल से मॉड्युलन होता है।
  - vi) सुपरहेटरोडाइन अभिग्राही में स्थानीय दोलित्र सदैव एक ही स्थिर आवृत्ति पर प्रचालित होता है।
  - vii) LCD TV की गहराई स्क्रीन की साइज़ पर निर्भर करती है।
  - viii) तरंगपथक क्षीणक, तरंग के ध्रुवण समतल का घूर्णन करता है।
  - ix) टोकन रिंग प्रोटोकॉल में आंकड़ों के संघटन की समस्या आती है।
  - x) WAP युक्तियों को तारों के बिना जोड़ने में सहायता करता है।
2. क) व्यवहार में किसी संचार तंत्र के लिये माध्यम का चयन किस प्रकार किया जाता है? ऐसिक माध्यम को वरियता क्यों दी जाती है? (4+1)

ख) एक समतल तरंग निम्नलिखित विद्युत-क्षेत्र से निरूपित किया है :

$$E = 180\pi \cos 10^8 (2\pi t - 100y).$$

इसकी (i) Hz में आवृत्ति (ii) तरंग संख्या, (iii) प्रावस्था संवेग, (iv) तरंगदैर्घ्य, और (v) संचरण की दिशा बताएं। (5)

3. क) तीन संदर्शों  $A, B, C$  की उपस्थिति की प्रायिकताएं क्रमशः 0.4, 0.3 और 0.3 हैं। यदि कुल 100 संदेश भेजे गए हों तो इनके द्वारा वहन की गई कुल सूचना ( $I_{total}$ ) परिकलित करें। एन्ट्रॉपी का मानभी ज्ञात करें। (3+2)

ख) एक  $1M\Omega$  प्रतिरोधक द्वारा  $1MHz$  बैंड चौड़ाई और  $37^\circ C$  पर उत्पन्न रव शक्ति एवं रव वोल्टता परिकलित करें। (3+2)

4. ब्लॉक आरेख की सहायता से आर्मस्ट्रांग FM जनित्र की कार्यप्रणाली समझाएं। आवश्यक प्रावस्था विस्थापन पाने के लिए कौन से विवक्त घटक (discrete component) परिपथ का प्रयोग किया जा सकता है? (8+2)

5. क) सिग्नल प्रेषण में अंकीय कोडन से विस्फोट त्रुटी का निराकरण कैसे किया जा सकता है यह समझाएं। (5)
- ख) मोबाइल टेलिफोनी में आधार स्टेशन तथा मोबाइल स्विचन केंद्र के कार्य विस्तार से बताएं। (5)
6. क) TV सिग्नल में तुल्यकालन स्पंदों की उपयुक्तता समझाएं। (5)
- ख) AM अभिग्राही में प्रतिबिंब आवृत्ति एवं द्वि-बिंदुकन परिघटनाओं की व्याख्या करें। इनका निराकरण कैसे किया जा सकता है? (3+2)
7. क) शॉट्की डायोड की संरचना समझाएं और साधारण  $p-n$  संधि डायोड की तुलना में इसके लाभ बताएं। (5)
- ख) एक प्रकाशिक तंतु में क्रोड का अपवर्तनांक 1.52 तथा परिनिधान का अपवर्तनांक 1.48 है। इसका क्रांतिक कोण परिकलित करें। यदि यह तंतु ग्लिसरीन में डुबाया गया हो तो स्वीकरण कोण परिकलित करें। ग्लिसरीन का अपवर्तनांक 1.47 है। (5)
8. क) नेटवर्क सुरक्षा क्या होती है? इसके प्रकार विस्तार से समझाएं। (5)
- ख) तीन अंकों  $X, Y, Z$  को जोड़ कर परिणाम को स्मृति स्थान  $D$  में भंडारित करने के लिए अनुदेश लिखें। (5)
9. क) किसी भी प्रतिरूपी वेब ब्राउज़र के टूलबार में उपलब्ध विभिन्न प्रकार्यों (functions) की व्याख्या करें। (5)
- ख) WAP स्थापत्यकला की OSI प्रतिदर्श से तुलना करें। (5)

\*\*\*\*\*